



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

2 पौष 1937 (श0)  
(सं0 पटना 1360) पटना, बुधवार, 23 दिसम्बर 2015

---

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

5 अक्टूबर 2015

सं0 वि०स०(का०)-01/2014-1658/वि०स०।—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि पंचदश बिहार विधान-सभा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या-209, करगहर एवं निर्वाचन क्षेत्र संख्या-121, परसा से निर्वाचित सदस्य श्री रामधनी सिंह तथा श्री छोटेलाल राय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 190(3)(ख) एवं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-65 के अधीन क्रमशः दिनांक 25.09.2015 एवं 28.09.2015 को सदन से अपने स्थान का त्याग करने का अपने अभिप्राय की सूचना दी गई है, जिसे माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा द्वारा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निर्वाचन क्षेत्र संख्या-209, करगहर दिनांक 25.09.2015 से तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या-121, परसा दिनांक 28.09.2015 से रिक्त हो गया है।

तदनुसार बिहार विधान-सभा के माननीय सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

राजीव कुमार,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान-सभा, पटना।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1360-571+20-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>